



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 16 जुलाई, 2022

आषाढ़ 25, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 1975/9-1-2020-81 टी0ए0-20

लखनऊ, 16 जुलाई, 2022

अधिसूचना

प0आ0-404

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, जिस अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार जनसामान्य की सूचना के लिए और उसके सम्बन्ध में आपत्तियाँ या सुझाव आमन्त्रित किये जाने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2-प्रस्तावित अधिसूचना के सम्बन्ध में आपत्तियाँ या सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-1, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

अधिसूचना का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, क्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या का घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येतर कार्यकलापों में नियोजन के प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करती हैं कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमायें नीचे अनुसूची-1 व अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट हैं, भारत का संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ संक्रमणशील क्षेत्र होगा और उक्त संक्रमणशील क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत मिहींपुरवा, जिला बहराइच के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची-1

नगर पंचायत मिहींपुरवा, जिला बहराइच का प्रादेशिक क्षेत्र

दिशा	सीमावर्ती ग्राम व उनकी गाटा संख्याएं
उत्तर	मिहींपुरवा की आराजी संख्या-1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 104, 109, 154, 155, 159, 161, 169, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 202, 204, 205, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248 मोतीपुर की आराजी संख्या-361, 362, 363, 372, 373, 374, 375, 488, 489, 490, 496, 498, 499, 501, 502 कुड़वा की आराजी संख्या-223, 225, 229, 310, 311, 318, 343, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 391, 392, 393, 396, 397, 398, 425, 426, 427, 428, 433, 444, 445, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 485, 486, 1420
दक्षिण	मोतीपुर की आराजी संख्या-1000, 1054, 1055, 1056, 1091, 1095, 1096, 1097, 1099, 1100, 1101, 1102, 1104 मिहींपुरवा की आराजी संख्या-776, 777, 779, 796, 799, 801, 816, 817, 818, 819, 822, 823, 825, 826, 832, 834, 833, 835, 837, 838, 919, 928 परवानीगौड़ी की आराजी संख्या-34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 93, 94, 415, 416, 417, 423, 425, 425/857, 435, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 521, 522, 523 कुड़वा की आराजी संख्या-1624, 1625, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1661, 1663, 1664, 1671, 1676, 1677, 1678, 1679, 1876, 1877, 1878, 1879
पूरब	कुड़वा की आराजी संख्या-1420, 1422, 1423, 1424, 1438, 1446, 1447, 1448, 1449, 1451, 1463, 1464, 1465, 1468, 1470, 1479, 149
पश्चिम	मोतीपुर की आराजी संख्या-320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 375, 415, 418, 421, 422, 433, 441, 550, 551, 630, 631, 632, 700

चौहद्दी :-

उत्तर-हंसुलिया, गोपिया, कुड़वा

दक्षिण-ऐंचुआ, परवानीगौड़ी, कुड़वा

पूरब-कुड़वा

पश्चिम-मोतीपुर

अनुसूची-2

नगर पंचायत मिहींपुरवा, जिला बहराइच में सम्मिलित होने वाले क्षेत्र

क्रम संख्या	ग्राम/राजस्व ग्राम का नाम	सम्मिलित क्षेत्र
1	मोतीपुर	आंशिक क्षेत्र (मोतीपुर, तुलसीरामपुरवा, सिंचाई कालोनी)
2	मिहींपुरवा	सम्पूर्ण क्षेत्र
3	परवानीगौड़ी	आंशिक क्षेत्र (मिहींपुरवा पूर्वी भाग, नयापुरवा, कालोनी, ब्लॉक के आस-पास, सुक्खापुरवा, तमोलिनपुरवा आंशिक)
4	कुड़वा	आंशिक क्षेत्र (टीचर्स कालोनी, गुलालपुरवा, चमारनपुरवा, पाण्डेयपुरवा, टेपरा, बोटनपुरवा, तमोलिनपुरवा आंशिक)

आज्ञा से,
अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1975/IX-1-2020-81T.A.-20, dated July 16, 2022:

No. 1975/IX-1-2020-81T.A.-20

Dated Lucknow, July 16, 2022

THE following draft notification which the Governor proposes to issue in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India *read* with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U. P. Act no. II of 1916) is hereby published for the information of the general public and with a view to invite objections or suggestions in respect thereof as required under sub-section (1) of section 4 of the said Act.

2. Objections or suggestions, if any, with respect to the proposed notification should be sent in writing addressed to the Pramukh Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Nagar Vikas Anubhag-1, Bapu Bhawan, Lucknow. Only such objections and suggestions shall be taken into consideration as are received within fifteen days from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

DRAFT NOTIFICATION

In exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India *read* with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U. P. Act no. II of 1916), the Governor having regard to the population of the area, the density of population therein, the revenue generated for the local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities and the economic importance is pleased to specify that the local area the limits of which are specified in Schedule-1 and Schedule-2 below, shall be a transitional area for the purposes of Part IX-A of the Constitution of India and there shall be constituted for the said transitional area a Nagar Panchayat to be known as Nagar Panchayat Mihinpurwa in district Bahraich.

SCHEDULE-1

Territorial area of Nagar Panchayat Mihinpurwa, district Bahraich

Direction	Boundary of Village and their Gatas
North	<p>Araji no. of Mihinpurwa—1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 104, 109, 154, 155, 159, 161, 169, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 202, 204, 205, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248</p> <p>Araji no. of Motipur—361, 362, 363, 372, 373, 374, 375, 488, 489, 490, 496, 498, 499, 501, 502</p> <p>Araji no. of Kudwa—223, 225, 229, 310, 311, 318, 343, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 391, 392, 393, 396, 397, 398, 425, 426, 427, 428, 433, 444, 445, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 485, 486, 1420</p>
South	<p>Araji no. of Motipur—1000, 1054, 1055, 1056, 1091, 1095, 1096, 1097, 1099, 1100, 1101, 1102, 1104</p> <p>Araji no. of Mihinpurwa—776, 777, 779, 796, 799, 801, 816, 817, 818, 819, 822, 823, 825, 826, 832, 834, 833, 835, 837, 838, 919, 928</p> <p>Araji no. of Parvanigaudhi—34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 93, 94, 415, 416, 417, 423, 425, 425/857, 435, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 521, 522, 523</p> <p>Araji no. of Kudwa—1624, 1625, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1661, 1663, 1664, 1671, 1676, 1677, 1678, 1679, 1876, 1877, 1878, 1879</p>
East	<p>Araji no. of Kudwa—1420, 1422, 1423, 1424, 1438, 1446, 1447, 1448, 1449, 1451, 1463, 1464, 1465, 1468, 1470, 1479, 149</p>
West	<p>Araji no. of Motipur—320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 375, 415, 418, 421, 422, 433, 441, 550, 551, 630, 631, 632, 700</p>

Boundary :-

North-Hansuliya, Gopiya, Kudwa
 South-Ainchua, Parvanigaudhi, Kudwa
 East-Kudwa
 West-Motipur

SCHEDULE-2

Area included in Nagar Panchayat Mihinpurwa, district Bahraich

Sl. No.	Village/Revenue Village	Area Included
1	Motipur	Partial area (Motipur, Tulsirampurwa, Sichayi Colony)
2	Mihinpurwa	Total area
3	Parvanigaudhi	Partial area (Mihinpurwa East part, Nayapurwa, Colony near to Block, Sukkhapurwa, Tamolinpurwa partial)
4	Kudwa	Partial area (Teachers Colony, Gulalpurwa, Chamaranpurwa, Pandeypurwa, Tepara, Botanpurwa, Tamolinpurwa partial)

By order,
 AMRIT ABHIJAT,
Pramukh Sachiv.